

प्रेस नोट दिनांक – 11.04.2021

थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व कोरोनावायरस से बचाव के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज द्वारा मय फोर्स के आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के मद्देनजर मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया गया तथा कस्बा बयारा, कस्बा बढनीचाफा क्षेत्र में घूमकर जनता के लोगों को कोरोनावायरस से बचाव के लिए जागरूक किया गया तथा उच्चाधिकारीगणों के आदेशों निर्देशों से भी अवगत कराया गया।

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2021

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के निर्देशन में व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.04.2021 को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मड़वा तिराहे के पास चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति असलम पुत्र अदालत ग्राम अगया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा वाहन संख्या UP65 BH 4067 पर चुनाव सम्बन्धी पोस्टर लगाया गया था व मना करने पर भी नहीं हटाने व आचार संहिता का उल्लंघन करने पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नं. 58/21 धारा 171(H) IPC पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11-04-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्नाटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 11-04-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 513 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 123 वाहनों का चालान कर ₹ 1,32,400/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 11-04-2021

प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज द्वारा किया गया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण, चौपाल लगा आसपास के लोगों से की गई वार्ता।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु डुमरियागंज पुलिस द्वारा लगातार आवश्यक कार्यवाही एवं तैयारियां की जा रही है उसी क्रम में समस्त मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करना व आवश्यक सुविधाओं/व्यवस्थाओं का जायजा लेना है जो लगातार प्रभारी निरीक्षक द्वारा किया जा रहा और गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आज दिनांक 11.04.2021 प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्ण देव सिंह द्वारा थाना डुमरियागंज के अन्तर्गत पड़ने वाले प्राथमिक विद्यालय चौकआनिया मतदान केन्द्रों व खरगोला गांव के लोगों से वार्ता कर आवश्यक जानकारी लेने के साथ ही सभी को निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मतदान करने तथा किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचने हेतु जागरूक किया गया।